

पैगम्बरे-इस्लाम एक आदर्श चरित्र

मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान

पैपर्स बरे-इस्लाम

एक आदर्श चरित्र

मौलाना वहीदुद्दीन खान

इस्लामी मर्कज़, नई दिल्ली

**First published 1989
Reprinted 2007
© Goodword Books 2007**

**Goodword Books Pvt. Ltd.
1, Nizamuddin West Market
New Delhi - 110 013
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com**

Printed in India

पै गम्बरे-इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम 22 अप्रैल 571 ई. को अरब में पैदा हुए और 8 जून 632 को आपका देहावसान हुआ. आप निहायत तन्दुरुस्त और ताक़तवर थे. बचपन से यह हाल था कि जो देखता कह उठता: इस लड़के का भविष्य शानदार है.

बड़े हुए तो आपकी शास्त्रियत और ज्यादा नुमायां व आकर्षक हो गई. देखने वालों पर आपका बड़ा असर पड़ता, आप इतने विनम्र, कोमल और मृदुभाषी थे कि थोड़ी देर भी कोई आपके पास रहता, आपसे मुहब्बत करने लगता.

सच्चाई, सहनशीलता, बर्दाश्त, ईमानदारी, इंसाफ-पसंदी, अच्छा सलूक-ये खूबियां आपके अन्दर कमाल दर्जे की थीं. आप इंसानी बुलन्दी और मानवीय पराकाष्ठा की बेहतरीन मिसाल थे, जिसको मनोवैज्ञानिक भाषा में एक संतुलित व्यक्तित्व (Balanced Personality) कहा जाता है.

दाउद बिन हुसैन कहते हैं कि अरब के लोग आमतौर से यह कहते हुए सुने जाते थे कि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इस शान से जवान हुए कि आप अपनी क़ौम में सबसे ज्यादा शिष्टाचार व अख़लाक वाले, पड़ौसियों की परवाह करने वाले, सहनशील, सच्चे, अमानतदार, झगड़े से दूर रहने वाले, अशलीलता और बेशर्मी से दूर रहने वाले थे. इसी बजह आपकी क़ौम ने आपका नाम 'अल-अमीन' (सच्चा व अमानतदार) रखा था.
(ख़साइसे-कुबरा, भाग 1, पृष्ठ 91)

25 साल की उम्र में जब आपने शादी की तो इस मौके पर आपके चाचा अबूतालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ते हुए कहा था:

मेरे भतीजे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला का मूकाबला जिस शास्त्र से भी किया जाए वह शराफ़त, सज्जनता, बुजुर्गी, अक़ल और बुद्धि में उससे बढ़ जाएगा। खुदा की कसम उसका भविष्य महान होगा और उसका रुतबा बुलन्द होगा।

अबूतालिब ने ये शब्द उन अर्थों में नहीं कहे थे, जिन अर्थों में बाद में इतिहास ने उसे सच्चा साबित किया। उन्होंने यह बात पूरी सांसारिक अर्थों में कही थी, दुनियावी लिहाज़ से कही थी। उनका मतलब यह था कि जो शास्त्र कुदरती तौर पर ऐसी आकर्षक शास्त्रियत लेकर पैदा हुआ हो, जो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला में दिखाई देती है, वह कौम में ऊंची जगह हासिल करता है और दुनिया के बाजार में उसकी बड़ी कीमत मिल कर रहती है। ऐसे आदमी की असाधारण योग्यताएं उसकी तरक्की और कामयाबी की पक्की गारंटी होती है।

पैगम्बरे-इस्लाम के लिए ये संभावनाएं निश्चित रूप से मौजूद थीं। आप अपनी ख़ूबियों और योग्यताओं की बड़ी से बड़ी सांसारिक कीमत बसूल कर सकते थे। आप मक्का के एक ऊंचे खानदान में पैदा हुए। हालांकि आपको अपने बाप से विरासत में सिर्फ एक ऊंटनी और एक खादिमा (दासी) मिली थी, पर आपकी शानदार पैदायशी ख़ूबियों ने मक्का की सबसे मालदार महिला को प्रभावित किया। 25 माल की उम्र में आपका उनसे निकाह हो गया था। यह महिला एक व्यापारी खानदान की विधवा थीं। उनसे आपको न सिर्फ माल व जायदाद मिली, बल्कि अरब में और अरब के बाहर व्यापार का जबरदस्त मैदान भी हाथ आया। अब आपके लिए सकून, बैफ़क्की और कामयाबी की ज़िंदगी जीने के सारे मौके उपलब्ध हो चुके थे। लेकिन आपने उनको छोड़कर एक और ही चीज़ को छुना। आपने जानते-बृजते अपने आपको एक ऐसी राह पर डाल दिया, जो सिर्फ दुनिया की बरबादी की तरफ ले जाती थी। खदीजा से निकाह से पहले आप अपनी गुज़र-बसर के लिए कुछ काम-धंधा कर लेते थे। अब वह भी छूट गया। अब आप जी-जान से उस तलाश में जुट गए, जिसकी जुस्तेज़ और तड़प आपको बचपन से थी। यह कि सच्चाई क्या है? आप घंटों बैठे हुए ज़मीन और आसमान पर गौर करते रहते, विचारों में ध्यान-मग्न रहते। मक्का के बड़े लोगों में अपने सम्बन्ध बढ़ाने और उनकी सभा-सोसायटी में अपनी जगह बनाने के बजाय आपने

यह किया कि रेगिस्तानों और पहाड़ों को अपना साथी बना लिया. मक्का से तीन मील के फासले पर एक पर्वत-श्रंखला है, जिसमें एक गुफा है जिसका नाम हिरा है. आप सत्तू और पानी लेकर वहाँ चले जाते. पहाड़ के शांत और सुनसान माहील में जिन्दगी की हकीकत पर गौर करते. ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाले से प्रार्थना करते, दुआएं मांगते कि मेरे रब, तू अपने आपको मेरे ऊपर प्रकट कर दे, ज़ाहिर कर दे! सच्चाई क्या है, मुझको बता दे. जब पानी की मशक्खाली हो जाती और सत्तू खत्म हो जाता तो घर वापस आते, ताकि दोबारा खाने-पीने का सामान लेकर कुदरत के उस माहील में लौट जाएं, जहाँ रेगिस्तान और पेड़ थे, पहाड़ और आसमान की शांत फिजाथी. आपका बेचैन मन दुनिया के हँगामें में अपने सवाले का जवाब न पा सका था. अब आपने प्रकृति और कुदरत की खामोश दुनिया को अपना साथी बनाया था कि शायद वह इसका कुछ जवाब दे सके.

हालांकि आपकी जिन्दगी पैग़म्बरी मिलने से पहले भी इसी किस्म की जिन्दगी थी, लेकिन वह तो पूरी तरह उनका स्वभाव था. वह स्वभाव तो उनकी शालिस्यत का हिस्सा था. अब सच्चाई की खोज ने इस स्वभाव में एक चेतना, एक सजगता, एक शऊर भर दिया था. जो किरदार और चरित्र अब तक अवचेतन और स्वाभाविक तकाजे के तहत प्रकट होता था, वह अब एक सोचे-समझे ज़ेहन का संकल्प बन गया था. यह किसी खुदा के बन्दे का वह मकाम है, वह स्तर है, जहाँ सांसारिकता और दुनियावी तकाजे बेमानी वं मूल्यहीन हो जाते हैं— या फिर सिर्फ जिन्दा रहने की बुनियादी ज़रूरत तक ही. उनका महत्व रह जाता है. उसका जिस्म इसी ज़ाहिरी दुनियां में होता है, पर मन के स्तर पर वह एक और ही दुनिया में जिन्दगी गुजारने लगता है.

एक हीस में पैग़म्बरे-इस्लाम ने कहा:

अङ्गलमंद आदमी के लिए ज़रूरी है कि उस पर कुछ घड़ियां गुज़रें—

ऐसी घड़ी जब कि वह अपने रब से बातें करे, ऐसी घड़ी जब कि वह अपनी जांच-परख करे (यानी आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन या स्वध्याय) ऐसी घड़ी जब कि वह खुदा की सृष्टि पर गौर करे और ऐसी घड़ी जब कि वह खाने-पीने की ज़रूरतों के लिए बङ्गत निकाले.

यानी खुदा का वफ़ादार बन्दा वह है, जिसके दिन-रात इस तरह गुजरें कि कभी उसकी बेचैनी व तड़प उसे खुदा से इतना करीब कर दे कि वह अपने रब से कानाफूसी (सरगोशी) करने लगे. कभी 'हिसाब वाले दिन' में सब के सामने छड़े होने का डर उसके ऊपर इतना छा जाए कि वह दुनियां ही में अपना हिसाब करने लगे. कभी जगत में खुदा की कारीगरी को देख कर वह उसमें इतना खो जाए कि उसके अन्दर उसको खुदा का नूर, खुदा का जलवा और खुदा का सौन्दर्य नज़र आने लगे, खुदा का अस्तित्व उसके सामने प्रत्यक्ष होने लगे.

तो इस तरह खुदा से मुलाकात, अपने आप से मुलाकात और खुदा की कायनात (सृष्टि) से मुलाकात में उसकी घड़ियां गुज़र रही हों. और शारीरिक तकाजे को पूरा करने के लिए वह खाने-पीने के लिए भी वक्त निकाल लिया करे.

ये शब्द दूर के किसी इन्सान का परिचय नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसमें खुद पैग़म्बरे-इस्लाम की अपनी शास्त्रियत बोल रही है. इससे ज़ाहिर होता है कि आपके जिस्म के अन्दर जो समर्पित रूह थी, उसमें हर वक्त किस किस्म के तूफान उठते रहते थे. आपकी ज़िन्दगी किस तरह की पीड़ा और किस तरह की अनुभूति के बीच से गुज़र रही थी. सच्चाई यह है कि जो आदमी खुद इन घड़ियों का अनुभव न कर रहा हो वह कभी इतने ऊंचे शब्दों में इस बात को नहीं कह सकता. ये एक ऐसी रूह से निकली हुई वाणी है, जिसने इन अनुभूतियों को समंग रूप में पाया था. जिसको वह शब्दों के माध्यम से दूसरों पर खोल रहा था.

पैग़म्बरी मिलने से पहले पैग़म्बरे-इस्लाम को मौजूदा दुनिया अपनी कभियों और सीमाओं के साथ बेमानी मालूम होती थी, लेकिन जब खुदा ने आप पर यह सच प्रकट कर दिया कि इस दुनिया के सिवा एक और दुनिया है, जो कामिल, सम्पूर्ण और अजर-अमर है और वही दुनिया इन्सानियत का असली घर है तो ज़िन्दगी और जगत दोनों आपके लिए बामानी व सार्थक हो गए. अब आपने ज़िन्दगी की वह सतह पा ली, जहां आप जी सकते थे, जिसमें आप अपना दिल लगा सकते थे. अब आपको एक ऐसी वास्तविक दुनिया मिल गई, जिससे अपनी उम्मीदों, तमन्नाओं और आकांक्षाओं को जोड़ सकें; जिसे

सामने रख कर अपनी ज़िन्दगी की योजना बना सकें.

इसी के लिए कहा गया कि 'दुनिया आखिरत की खेती' है. इसको आजकल की शब्दावली में आखिरत-रुखी ज़िन्दगी या परलोकमुखी जीवन (Akhirat Oriented Life) कहा जो सकता है. ऐसा आदमी अपना जीवन-दर्शन ही ऐसा बना लेता है कि वह आखिरत को अपना असली मसला समझने लगता है. उसके जीवन में आखिरत ही सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है. वह सचेत हो जाता है कि दुनिया हमारी मंजिल नहीं है बल्कि वह सिर्फ रास्ता है. वह आखिरत के भविष्य की तैयारी का एक आरम्भक पड़ाव मात्र है. जिस तरह एक संसारजीवी आदमी की तमाम कोशिशें, तमाम गतिविधियां सांसारिक जोड़-तोड़ के गिर्द घूमती हैं, उसी तरह खुदा के एक सच्चे बन्दे की पूरी ज़िन्दगी का रुख आखिरत की तरफ हो जाता है. हर मामले में वह इस ढंग से सोचता है कि आखिरत में उसका अंजाम क्या होगा. खुशी हो या ग्रम, कामयाबी हो या नाकामी, ज़बरदस्ती की हालत हो या ज़ोरावरी की, तारीफ की जा रही हो या आलोचना, गुस्से का मौका हो या मुहब्बत का, हर हालत में आखिरत का ध्यान उसे राह दिखाता है. यहां तक कि ऐसा वक्त आता है, जब आखिरत का चिन्तन उसके अवचेतन व 'लाशऊर' का हिस्सा बन जाता है. हालांकि अब भी वह एक लौकिक मानव होता है, पर उसका ज़ेहन उन्हीं बातों के लिए प्रतिबद्ध रहता है, उन्हीं बातों से सरोकार रखता है. जो आखिरत से ताल्लुक रखने वाली हों. जिन बातों में आखिरत का कोई पहलू न हो उनसे उसकी दिलचस्पी इतनी कम हो जाती है कि कभी-कभी उसे कहना पड़ता है— "तुम अपने दुनिया के मामलों को मुझसे ज़्यादा जानता हो"

इस हकीकत की हैसियत महज एक बौद्धिक खोज की नहीं है. इसको पाने के बाद आदमी के जीने की सतह बदल जाती है. आदमी कुछ से कुछ हो जाता है. इसकी बेहतरीन मिसाल खुद पैगम्बरे-इस्लाम का व्यक्तित्व है. आपकी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब तक जीने की सतह न बदले, अमल व कर्म की सतह नहीं बदल सकती.

पैगम्बरे-इस्लाम ने जब यह हकीकत पाई तो वह उनकी पूरी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा मसला बन गया जिस जन्नत की खबर आप दूसरों को दे रहे

थे, उसके आप सबसे बड़े आकांक्षी बन गए और जिस जहन्नुम से दूसरों को डरा रहे थे, उससे आप खुद सबसे ज्यादा डरने लगे. आपका यह अन्दरूनी तूफान बार-बार दुआ और अस्तग़फ़ार (ईश्वर से प्रार्थना और क्षमा याचना) के रूप में अभिव्यक्त होता. आपके जीने की सतह आम लोगों से कितनी अलंग थी, इसका अंदाजा चंद घटनाओं से होगा.

उम्मे-सलमा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम उनके घर में थे. आपने ख़ादिमा (दासी) को बुलाया. उसने आने में देर की. आपके चेहरे पर गुस्सा ज़ाहिर हो गया. उम्मे-सलमा ने पर्दे के पास जाकर देखा तो ख़ादिमा को खेलते हुए पाया. उस वक्त आपके हाथ में एक मिस्वाक (वातुन) थी. आपने ख़ादिमा से कहा : अगर क़्यामत के दिन मुझे बदले का डर न होता तो मैं तुझको इस मिस्वाक से मारता.

बदर की लड़ाई (रमज़ान, सन् 2 हिजरी) के बाद जो लोग कैदी बन कर आए, वे आपके बदतरीन दुश्मन थे. लेकिन आपने उनके साथ बेहतरीन सलूक किया. उन कैदियों में एक व्यक्ति सुहैल बिन अमरू था, जो निहायत उत्तेजनापूर्ण भाषण देने वाला था. और तमाम मजमों में आपके खिलाफ बेहदा तकरीरें किया करता था. उमर फारूक ने राय दी कि इसके नीचे के दो दांत उखाड़ दिए जाएं ताकि इसका भाषण देने का जोश खत्म हो जाए. इस पर आपने कहा :

'खुदा मेरा चेहरा क़्यामत में बिगाड़ देगा, हालांकि मैं खुदा का रसूल हूँ.'

पैग़म्बर-इस्लाम आम इन्सानों की तरह एक इन्सान थे. खुशी की बात से आपको खुशी होती थी और दुख की बात से आप दुखी हो जाते थे. लेकिन आपकी खुदा-परस्ती आपको खुदा के तय किए हुए दायरे से बाहर नहीं जाने देती थी.

पैग़म्बर-इस्लाम की आखिरी उम्र में मारिया किब्लिया से एक लड़का पैदा हुआ. यह लड़का ख़ूबसूरत और तन्दुरस्त था. इसका नाम आपने अपने सबसे बुजुर्ग वंशज (पैग़म्बर इब्राहीम) के नाम पर इब्राहीम रखा. अबू राफे'

ने जब इब्राहीम के जन्म की खबर आपको सुनाई तो आप इतना खुश हुए कि अबू राफे' को एक गुलाम इनाम में दे दिया. आप इब्राहीम को गोद में लेकर खिलाते और प्यार करते. अरब के रिवाज के मुताबिक इब्राहीम को एक दाई उम्मे बरदा बिन्त - अल-मनजर बिन ज़ैद अंसारी के हवाले कर दिया गया, ताकि वह दूध पिलाएं. यह दाई एक लोहार की पत्नी थी. उनके छोटे से घर में अक्सर भट्टी का धुंआ होता रहता था. आप लड़के को देखने के लिए लोहार के घर जाते और वहां धुंआं आपकी आंख और नाक में घुसता रहता. और आप बहुत नाज़ुक तभियत के होने के बावजूद उसको बर्दाश्त करते. इब्राहीम अभी डेढ़ साल के हुए थे कि हिजरत के दसवें साल (जनवरी 632) में उनका देहांत हो गया. आप बेटे की मौत को देख कर रोने लगे.

इन घटनाओं में पैगम्बरे-इस्लाम एक आम इन्सान की तरह दिखाई देते हैं. उनके ज़ज्बात, उनकी भावनाएं, उनकी हसरतें और आकांक्षाएं वैसी ही हैं जैसी एक आम बाप की होती हैं. लेकिन इसके बावजूद खुदा का दामन आपके हाथ से छूट नहीं पाया. आप दुखी हैं पर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे हैं:

खुदा की कसम, ऐ इब्राहीम, हम तुम्हारी मौत से दुखी हैं. आंख रो रही है, दिल दुखी है, पर हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो रब को नापसंद हो.

जिस दिन इब्राहीम का देहांत हुआ, इत्फाक से उसी दिन सूरज-ग्रहण पड़ा. पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि सूर्य-ग्रहण और चन्द्र-ग्रहण किसी की मौत के कारण होता है. मदीने के मुसलमान कहने लगे कि यह सूरज-ग्रहण पैगम्बर के बेटे की मौत के कारण हुआ है. आपको यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि यह बात इन्सान की विनम्र हैसियत के खिलाफ थी. आपने लोगों को जमा करके भाषण दिया और कहा:

सूरज और चांद में किसी इन्सान की मौत से ग्रहण नहीं लगता. ये तो अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं. जब तुम ऐसा देखो तो नमाज़ पढ़ो.

एक और घटना इतिहास में इन शब्दों में दर्ज है:

एक बार आप सफर में थे. आपने अपने साथियों को एक बकरी

तैयार करने का हक्म दिया. एक शंख्स बोला: मैं इसको ज़िबह करूँगा. दूसरे ने कहा: मैं इसकी खाल उतारूँगा. तीसरे ने कहा: मैं इसको पकाऊँगा. इस पर आपने कहा: मैं लकड़ी जमा करूँगा. लोगों ने कहा: ऐ खुदा के रसूल, हम सब काम कर लेंगे. (यानी आप कुछ न करें) आपने फरमाया: मैं जानता हूँ कि तुम लोग कर लोगे, पर मैं इम्तियाज़ (छोटे बड़े में भेद) को पसंद नहीं करता. अल्लाह को यह पसंद नहीं कि उसका कोई बन्दा अपने साथियों के बीच इम्तियाज़ के साथ (यानी विशिष्ट बन कर) रहे.

आप अपने को खुदा का एक मामूली बन्दा ही समझते थे. आपने फरमाया:

खुदा की क़सम मैं नहीं जानता, खुदा की क़सम मैं नहीं जानता, हालांकि मैं खुदा का रसूल हूँ, कि क्या किया जाएगा मेरे साथ और क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ. (बुखारी)

अबू ज़र गफकारी बताते हैं, एक दिन मैं एक मुसलमान (सहाबी) के पास बैठा हुआ था. उनका रंग काला था. किसी बात के लिए मैंने उन्हें पुकारा तो मेरे मुख से निकल गया: "ऐ काले रंग वाले!" नबी सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने सुना तो बहुत नाराज़ हुए. और बोले: "पैमाना पूरा भरो! पैमाना पूरा भरो!"

इस चेतावनी के बाद अबू ज़र गफकारी को अपनी ग़लती का अहसास हुआ. वह पश्चात्ताप और गुनाह के डर से कांप उठे और ज़मीन पर लेट गए. फिर उस व्यक्ति से उन्होंने कहा, "खड़ा हो और मेरे चेहरे को अपने पैरों से मसल दे."

एक दिन नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने एक मालदार मुसलमान को देखा कि वह अपने पास बैठे हुए एक ग़रीब मुसलमान से बचने की कोशिश कर रहा है और अपने कपड़े समेट रहा है. आपने फरमाया: 'क्या तुम को डर है कि इसकी गरीबी तुमसे लिपट जाएगी?"

मदीना में बाकायदा इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है. और नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम शासनाध्यक्ष हैं. उस ज़माने में आपको एक बार

एक यहूदी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ी. कर्ज़ अदा करने की मुद्दत तय हुई थी. अभी उसमें कुछ दिन बाकी थे कि यहूदी तकाज़ा करने के लिए आ गया. उसने आपके कंधे की चादर उतार ली. और कुर्ता पकड़ कर कठोर शब्दों में बोला, "मेरा कर्ज़ अदा करो." फिर कहने लगा, "अब्दुल मुत्तलब की औलाद बड़ी कर्ज़-चोर है!"

हज़रत उमर फारुक उस समय आपके साथ थे. यहूदी की बदतमीजी पर आपको बड़ा गुस्सा आया. उन्होंने उसको डांटा. लगता था कि वह उसे मारने लगेंगे. पर पैगम्बरे-इस्लाम सिर्फ़ मुस्कराते रहे. यहूदी से सिर्फ़ इतना कहा, "अभी तो वादे में तीन दिन बाकी हैं," फिर उमर फ़ारुक से फ़रमाया:

उमर ! मैं और यह यहूदी तुमसे एक और बरताव के ज़्यादा ज़रूरतमन्द थे. मुझसे तुम बेहतर अदायगी के लिए कहते और उससे बेहतर तकाजे के लिए.

फिर उमर फ़ारुक से कहा कि जाओ फलां व्यक्ति से खजूरें लेकर इसका कर्ज़ अदा कर दो. और बीस साअ (लगभग 40 किलो) ज़्यादा देना, क्योंकि तुमने उसे झिड़का था.

पैगम्बरे-इस्लाम को अपनी ज़िन्दगी में इतनी कामयाबी मिली कि आप अरब से लेकर फिलिस्तीन तक के इलाके के शासक बन गए. खुदा का रसूल होने के कारण आपकी ज़बान कानून का दर्जा रखती थी. आप ऐसे लोगों के बीच थे जो आपकी इज़्ज़त और आपका आदर-सम्मान इतना ज़्यादा करते थे जो कभी किसी इन्सान को नहीं मिला. हुदैविया की बातचीत के मौके पर अरूह बिन मसऊद, कुरैश के राजदूत की हैसियत से आए तो वह यह देख कर हैरान रह गए कि जब आप वजू करते हैं तो लोग दौड़ पड़ते हैं कि आपका ग़साला (वजू का पानी) ज़मीन पर गिरने से पहले हाथ पर ले लें और उसको तबर्क (प्रसाद) के तौर पर ज़िस्म पर मल लें. अन्स कहते हैं कि बेहद मुहब्बत के बावजूद हम लोग आँख भर कर आपको देख नहीं सकते थे. मुग़ीरा कहते हैं कि किसी सहाबी (साथी) को आपके घर पर दस्तक देने की ज़रूरत होती तो वह नाखून से दरवाज़ा खटखटाता था. जाविर बिन समरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम सुर्ख चादर ओढ़ कर चांदनी

रात में सो रहे थे; मैं कभी चांद को देखता, कभी आपको! आखिर मैंने यही फैसला किया कि आप चांद से ज्यादा खूबसूरत हैं. हनीन में जब जंग के शुरू में मुस्लिम फौज की हार हुई और विरोधी फौज ने आपके ऊपर तीरों की बारिशा शुरू कर दी तो आपके साथियों ने आपको धेरे में ले लिया. वे सारे तीर अपने हाथ और जिस्म पर इस तरह रोकते रहे जैसे वह इन्सान नहीं, लकड़ी हैं. यहां तक कि कुछ साथियों का यह हाल हुआ कि उनके शरीर पर साही के कांटे की तरह तीर लटकने लगे थे.

इस तरह की श्रद्धा और अकीदत आदमी के मिजाज को बिगाढ़ देती है. वह अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगता है. पर आप लोगों के बीच बिल्कुल आम इन्सान की तरह रहते. कोई कटु आलोचना, कोई तल्ख और भड़का देने वाली बात आपको आपे से बाहर करने वाली साक्षित न होती. सही हवीस में हज़रत अन्स का बयान है कि एक देहाती आया. उसने आपकी चादर को ज़ोर से खींचा, फिर बोला, "मुहम्मद, मेरे ये दो ऊंट हैं. इनकी लाद का सामान मुझे दो, क्यों कि जो माल तेरे पास है, वह न तेरा है, न तेरे बाप का है." आपने फ़रमाया, "माल तो अल्लाह का है और मैं उसका बन्दा हूं." फिर देहाती से पूछा, "जो बरताव तुमने मुझसे किया, उस पर तुम डरते नहीं?" वह बोला, "नहीं." आपने पूछा, "क्यों?" उसने कहा, "मुझे मालूम है कि तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते." आप यह सुनकर हँस पड़े और हुक्म दिया कि देहाती को एक ऊंट के बोझ की जौ और एक की छज्जूरें दी जाएं.

आप पर खुदा का डर इस कदर छाया रहता था कि आप विनम्रता, भक्ति भाव और "बन्दगी" की तस्वीर बने रहते थे. बहुत कम बोलते. चलते तो झुक कर चलते. अपनी आलोचना से कभी नाराज न होते. कपड़े पहनते तो कहते कि मैं खुदा का बन्दा हूं और बन्दों की तरह लिबास पहनता हूं. खाना खाते तो अदब के साथ बैठकर खाते और फरमाते कि मैं बन्दों की तरह खाना खाता हूं. यानी मैं भी एक आम इन्सान और मामूली बन्दा ही हूं.

इस बात के प्रति आप बहुत सजग रहते थे कि लोग भी उन्हें खुदा का मामूली बन्दा ही समझें. एक बार एक साथी ने इसी बात पर आपसे कहा, "जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें." यह सुनते ही आपके चेहरे का रंग

बदल गया. आपने तमतमा कर कहा, "क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया? तुमको इस तरह कहना चाहिएः वो होगा जो अल्लाह चाहे".

इसी तरह आपके एक साथी ने भाषण करते हुए कहा, "जो अल्लाह और रसूल का हुक्म माने वह सीधे रास्ते पर है और जो इन दोनों का हुक्म न माने वह गुमराह और भटका हुआ है."

यह सुनकर आपने फरमाया, "तू कौम का बुरा ख़तीब (वक्ता) है." यानी आपको यह बात पसन्द नहीं आई कि किसी बात में अल्लाह और रसूल का नाम इस तरह बराबरी से लिया जाए. जैसे दोनों का बराबर का दर्जा हो.

पैगम्बरे-इस्लाम के यहां तीन लड़के पैदा हुए, जो बचपन में ही चल बसे. चार बेटियां बड़ी उम्र तक पहुंची. चारों बेटियां आपकी पहली पत्नी हज़रत ख़दीजा से जन्मीं. हज़रत फ़ातिमा आपकी सबसे छोटी बेटी थीं: आप हज़रत फ़ातिमा से बेहद मुहब्बत करते थे. किसी सफर से वापस लौटते तो मस्जिद में दो रकअत् नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा के घर जाते. उनके हाथ और माथे को चूमते. हज़रत आइशा (आपकी सबसे छोटी पत्नी) से जर्मीं बिन उमैर ने पूछा: नवी सललल्लाहो अलैहि व सल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन था? उन्होंने जवाब दिया, "फ़ातिमा".

लेकिन पैगम्बरे-इस्लाम की पूरी ज़िन्दगी आखिरत में ढल गई थी. इसलिए औलाद से मोहब्बत का अर्थ भी आपके लिए दूसरा था. एक किताब को छोड़कर हदीस की सभी प्रामाणिक किताबों में एक घटना बयान की गई है; वह यह कि हज़रत फ़ातिमा के प्रति हज़रत अली ने एक बार इब्ने अब्दुल वाहिद से कहा: "मैं तुम को फ़ातिमा की एक बात सुनाऊं, जो सारे कुन्बे में नवी सललल्लाहो अलैहि व सल्लम को सबसे प्यारी थीं?" इब्ने अब्दुल वाहिद ने कहा, "हाँ".

हज़रत अली ने कहा, "फ़ातिमा का यह हाल था कि चक्की पीसतीं तो हाथ में छाले पड़ जाते, पानी की मशक उठाने की वजह से गरदन में निशान पड़ गया था. झाड़ देतीं तो कपड़े मैले हो जाते. उन्हीं दिनों नवी सललल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास कुछ ख़ादिम (दास) आये. मैंने फ़ातिमा से कहा: "तुम अपने पिता के पास जाओ और अपने लिए एक ख़ादिम मांगो. फ़ातिमा गई,

पर वहां लोगों की भीड़ की बजह से वह आप से मिल न सकीं। अगले दिन नबी सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम हमारे घर आये। और पूछा कि क्या बात थी? फ़ातिमा चुप हो गई। मैंने पूरा किस्सा बताया और यह भी बताया कि मैंने ही फ़ातिमा को आपके पास भेजा था। पूरी बात सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम ने फरमाया:

ऐ फ़ातिमा, खुदा से डरो। अपने रब के फर्ज अदा करो। अपने घर वालों के काम करो। जब बिस्तर पर जाओ तो 33 बार खुदा की 'तस्बीह' करो, 33 बार खुदा की 'हम्द' करो, 34 बार खुदा की 'तकबीर' करो। यह पूरा सौ हो गया। यह तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है।

(यानी 33 बार खुदा की प्रशंसा व तारीफ करो अर्थात् 'सुबहानल्लाह' कहो; यानी हर प्रकार की तारीफ अल्लाह के लिए है। 33 बार खुदा का गुणगान करो अर्थात् 'अलहम्दोलिल्लाह' कहो, यानी हर प्रकार की स्तुति और सराहना खुदा ही के लिए है। 33 बार खुदा की महानता बयान करो अर्थात् 'अल्लाहो अकबर' कहो, यानी अल्लाह महानतम है, सबसे बड़ा है।)

हज़रत फ़ातिमा ने यह सुनकर कहा, "मैं खुदा और रसूल से इस पर खुश हूं।" हज़रत अली कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम ने बस यही जवाब दिया और फ़ातिमा को खादिम नहीं दिया।

पैगम्बरे-इस्लाम पर जो सच्चाई प्रकट की गई थी वह यह थी कि यह जगत बिना खुदा के नहीं है। इसका एक खुदा है और वही उसका बनाने वाला, पालने वाला और मालिक है। सारे इन्सान उसके बन्दे (दास व भक्त) हैं। और सारे इन्सान अन्ततः उसी के सामने जवाबदेह हैं। मरने के बाद आदमी ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि दूसरी दुनिया में एक मुस्तकिल और अनन्त ज़िन्दगी शुरू करने के लिए दाखिल हो जाता है। वहां नेक आदमियों के लिए जन्नत का आगम है और वे लोगों के लिए जहन्नुम की भड़कती हुई आग।

खुदा ने पैगम्बरे-इस्लाम को जब यह सच्चाई बताई तब आपको यह

हुक्म भी दिया कि सारे इन्सानों को इस सच्चाई से आगाह करो, सबको यथार्थ के प्रति सचेत करो. मक्का के किनारे 'सफ़ा' नाम की एक चट्टान थी, जो उस जमाने में लोगों के मज्जे को सम्बोधित करने के लिए स्टेज का काम देती थी. आपने सफ़ा पर चढ़कर लोगों को पुकारा. लोग जमा हो गए तो आपने तक़रीर की. आपने खुदा की बढ़ाई बयान करने के बाद कहा:

खुदा की कसम तुम्हें मरना है, जिस तरह तुम सोते हो और फिर तुमको उठना है, जिस तरह तुम जागते हो. और ज़रूर तुमसे हिसाब लिया जाएगा. जो तुम करते हो. और फिर अच्छे काम का अच्छा बदला है और बुरे काम का बुरा बदला. और इसके बाद या तो हमेशा के लिए बाग है या हमेशा के लिए आग.

अगर दुनिया और ज़माने के खिलाफ जाकर निजी तौर पर कोई इन्सान कोई तरीका या मार्ग अपनाता है, उस समय भी हालांकि क़दम-क़दम पर मुश्किलें-मुसीबतें आती हैं. फिर भी ये मुसीबतें हिंसक और धातक नहीं होतीं. ये मुसीबतें आदमी के ज़ज्बात और भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, पर आदमी के जिस्म को ज़ख्मी नहीं करतीं. यह ज्यादा से ज्यादा आदमी के धैर्य या खामोश सब्र का इम्तहान होती हैं. पर उस ब्रह्म स्थिति बिल्कुल बदल जाती है, जब आदमी ज़माने के खिलाफ एक आवाज़ का प्रणेता बनकर खड़ा हो जाता है; एक हकीकत का दावेदार और एक सच्चाई की तरफ बुलाने वाला बन जाता है. जब वह दृसरों से कहने लगता है कि यह करो और वह न करो. पैगम्बरे-इस्लाम सिर्फ़ खुदा के एक सच्चे बन्दे नहीं थे, बल्कि खुदा के पैगाम को दृसरों तक पहुंचाने का मिशन भी आपको सौंपा गया था.

आपकी इस दृसरी हैसियत ने आपको पूरी अरब कौम से टकरा दिया. भूखे रहने से लेकर जंग तक के कठिन हालात से आपको गुज़रना पड़ा. पर 23 साल की पूरी ज़िन्दगी में आप पूरी तरह इन्साफ़, संयम और परहेज़गारी पर कायम रहे. इसका कारण यह नहीं था कि आपके अन्दर इन्सानी ज़ज्बात या मानवीय दुर्बलता नहीं थी. असली कारण यह था कि खुदा के डर ने आपको पावन्द बना रखा था.

हिजरत के तीसरे साल मक्का के विरोधियों ने मदीने पर चढ़ाई की. इसे उहद की लड़ाई कहा जाता है. इस जंग में शुरू में मसलमानों की जीत हुई

लेकिन इसके बाद आपके कुछ साथियों की ग़लती से दुश्मनों को मौक़ा मिल गया और उन्होंने पीछे से हमला करके जंग का नक्शा बदल दिया. यह बड़ा भयानक दृश्य था. आपके ज्यादातर साथी लड़ाई के मैदान से भागने लगे. यहां तक कि आप हथियारबन्द दुश्मनों के घेरे में अकेले घिर गए विरोधियों का मुण्ड भूखे भेड़ियों की तरह आप की तरफ बढ़ रहा था. आपने अपने साथियों को पुकारना शुरू किया: "खुदा के बन्दो, मेरी तरफ आओ. कौन है जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करे. कौन है जो इन जालिमों को मुझसे हटाए वह जन्नत में मेरा दोस्त होगा."

वह कैसा भयानक समां होगा जब खुदा के रसूल की जबान से इस तरह के शब्द निकल रहे थे. हालांकि आप के साथियों में से एक आपकी पुकार पर आगे बढ़ा. पर उस वक्त इतनी ज्यादा उथल-पुथल और अफ्रा-तफ़री थी कि आप पर जान न्यौछावर करने वाले भी आपको पूरी तरह बचाने में कामयाब न हो सके. अत्वा इब्न अबी विकास ने आपके ऊपर एक पत्थर फैंका. यह पत्थर आपको इतनी जोर से लगा कि होठ कुचल गए और नीचे के दांत टूट गये. अब्दुल्ला इब्ने कमीया कूरैश का मशहूर पहलवान था. उसने आप पर सख्त हमला किया, जिसके नतीजे में लोहे की टोपी, (लड़ाई के दौरान पहना जाने वाला हेलमैट) की दो क़ड़ियां आपके गाल में धुस गई. यह क़ड़ियां इतनी गहराई तक धुसी थीं कि अबू उबैदा बिन अलजराह ने जब उनको निकालने के लिए अपने दांतों से पकड़ कर खींचा तो अबू उबैदा के दो दांत टूट गए. एक और शाख्स अब्दुल्ला बिन शहाब जे.हरी ने आपको पत्थर मारा, जिससे आपका माथा जख्मी हो गया. लगातार खून बहने से आप बेहद कमज़ोर हो गए. यहां तक कि आप एक गड्ढे में जा गिरे. मैदान में जब आप देर तक दिखाई नहीं दिए तो चारों तरफ यह बात फैल गई कि आप शाहीद हो गए हैं. उस दौरान आपके एक साथी की नज़र गड्ढे की तरफ गई. वह आपको देख कर खुशी से बोल उठा, "रसूलुल्लाह यहां हैं!" आपने उंगली के इशारे से उनको मना किया कि चुप रहो, दुश्मनों को यहां मेरी मौजूदगी का पता न चलने दो."

ऐसे खौफनाक हालात में आपके मुँह से कुरैश के कुछ सरदारों (सूफियान, सुहैल, हारिस) के लिए बद्दुआ के शब्द निकल गए. आपने कहा:

"वह कौम कैसे कामयाबी पाएगी, जो अपने नबी को जख्मी करे." आपकी यह बात अल्लाह को पसन्द नहीं आई और जिबरील खुदा की तरफ से यह 'वही' लेकर आएः

तुमको कोई बात तय करने का कोई अखिल्यार नहीं, खुदा या तो उनको तौबा करने की तौफीक (समझ व पात्रता) देगा या उनको अजाब (यातना) देगा, क्योंकि वे ज़ालिम हैं. (आले-इमरानः 128)

खुदा की तरफ से इतनी चेतावनी काफी थी. फौरन आपका गुस्सा ठंडा हो गया. आप जख्मों से निढ़ाल हैं, पर ज़ालिमों और अत्याचारियों के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा उन्हें हिदायत दे और रास्ता दिखाएँ. आपके एक साथी अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, "इस बङ्गत भी जैसे नबी सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम मेरे सामने हैं. आप अपने माथे से खून पोंछते जाते हैं और यह कह रहे हैं: खुदा, मेरी कौम को माफ़ कर दे, क्योंकि वह नहीं जानते."

हीस और सीरत की किताबों में ऐसी ही अनेक-अनगिनत घटनाएँ हैं. उनमें से सिफ्फ चन्द घटनाएँ ऊपर दी गई हैं. यह घटनाएँ बताती हैं कि किस तरह पैग़म्बरे-इस्लाम की जिन्दगी एक मानव चरित्र और इन्सानी किरदार का आदर्श नमूना थीं. ये घटनाएँ व्यावहारिक रूप से यह सबक देती हैं कि इन्सान खुदा का बन्दा है. और उसको हर हाल में खुदा का बन्दा बन कर रहना चाहिए. खुदा और बन्दे के बीच के रिश्ते का तकाज़ा है कि बन्दे के दिल में हर बङ्गत खुदा का और उसकी आखिरत का तूफान बरपा रहे. सारी कायनात उसके लिए खुदा की याद दिलाएँ. वह हर घटना को खुदा की नज़र से देखे. और हर चीज़ में खुदा का निशान पा ले. दुनिया में कोई मामला करते बङ्गत वह कभी यह न भूले कि आखिर सारा मामला खुदा के हाथ में जाने वाला है. जहन्नुम का डर उसे इन्सानों के प्रति विनम्र बना दे और जन्नत का शौक उसकी नज़र में दुनिया को बेमानी और अर्थहीन बना दे. खुदा की बढ़ाई के ध्यान में वह इस कदर खो जाए कि अपनी बढ़ाई की कोई भी बात उसे हास्यास्पद और बेमानी लगे. अपनी आलोचना पर वह अपना संतुलन न खोए और कोई तारीफ़ उसके दिमाग़ को बिगाड़ न दे— यह है इन्सानी किरदार का वह नमूना, जो खुदा के रसूल ने अपने अमल और कर्म से हमें बताया.

